

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा।

पत्रांक 2066

आरा, दिनांक 30/12/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा-महावीर टोला भोजपुर

विषय:- Kaushalya Construction के नाम से जमा FD का सत्यापन करने के संबंध में ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Kaushalya Construction पता-
कुशिहालपुर जिला-भोजपुर जो NEW Maintenance Policy 2018 (MR 3054) पैकेज संख्या-
MR-N/21-22/Ara/28 तक पथ में डाला गया जमा-पुष्टि (F.D) आपके शाखा से निर्गत किया
गया है जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल आरा के नाम से प्रतिष्ठित
है जिसका सत्यापन कर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सूचित किया जाए जो नीचे निम्न प्रकार है।

क्रमांक	FD	निर्गत करने की तिथि	समाप्ति की तिथि	राशि
1.	52590300006143	31.08.2022	31.08.2027	11,000.00
2.	52590300006142	31.08.2022	31.08.2027	1,25,000.00
3	52590300006499	26.12.2022	26.12.2027	22,000.00
4	52590300006141	31.08.2022	31.08.2027	1,72,000.00
		Total		3,30,000.00

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा।

26.12.22



All FDs are lien to
EE Mr. RWD Hark
Division As 1

26/12/2022

Proposal to EG RWD WORKS CONSTRUCTION AKA

154242

KAUSHALYA CONSTRUCTION

KHUSHIHALPUR
BELGHAT BALUAN
802301
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No 52590300006143

सावधि सूचना नं./ FD Advice No FDR3108223835

कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No MB073901

व्यवहार खाता Linked Operative a/c 52590300001268

शाखा का नाम/Branch Name MAHAVIR TOLA ANRAN BI

योजना Scheme FIXED DEPOSIT - BIRD/RES

नामांकन / Nomination Y

नमिति पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 1

पैन नंबर / PAN No. EDVPK7714M

पारपात्र पद्धति / Mode of
Operation SELF

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है)

Guardian Name

(If a/c holder is minor)

नियत विहित / Lien Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
₹ 1,44,55	31-08-2022	5.50	60 Months 0 Days	31-08-2027	14455

परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax laws)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर वार्षिक है।

1. Rate of Interest is in percentage per annum

2. ऑटोमैटिक नवीकरण क्लॉज

2. Automatic Renewal Clause

3. यदि संचालन अवधि 12 महीने से अधिक है तो 1 वर्ष के ब्याज दर से अधिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा।

3. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not notified otherwise.

4. यदि संचालन अवधि 12 महीने से कम है तो 1 वर्ष के ब्याज दर से कम ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा।

4. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not notified otherwise.

5. फॉर्म 15G और 15H का उपयोग निवासी खातों के लिए है।

5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

6. फ्रेश 15G/15H/15AA (यदि लागू हो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी तिथि 31 मई तक प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा ब्याज पर टीडीएस काट दिया जाएगा।

6. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

7. फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।

7. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).

8. प्रीमैच्यूर वॉथड्रॉल क्लॉज

8. Premature Withdrawal Clause

9. प्रीमैच्यूर वॉथड्रॉल (अर्थात् 1 वर्ष से कम अवधि के लिए) ब्याज दर से कम ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा।

9. Premature withdrawal of deposit within 1 year will attract 1 year rate of interest on the date of deposit, for the period for which deposit has not matured.

10. प्रीमैच्यूर वॉथड्रॉल (अर्थात् 1 वर्ष से कम अवधि के लिए) ब्याज दर से कम ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा।

10. Premature withdrawal of deposit above 1 year will attract 1 year rate of interest on the date of deposit, for the period for which deposit has not matured. Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 year, a withdrawal notice of 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

नोट: यह सिस्टम जनरेट किया गया है और इसमें कोई हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।

154242

pledge TO EE RWD WORKS DIVISION. PRA

[Handwritten Signature]

KAUSHALYA CONSTRUCTION

KRISHNAJI PUR
BILCHAT BALUAN
837321
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 52590300006142

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR3108225241

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No MB1073901

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 52590200001266

शाखा का नाम/Branch Name MAHAVIR TOLA ARRAH BI

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination Y

नामित पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 5259

पैन नंबर / PAN No. EDVPM7714M

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation PROPRIETOR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अल्पवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

निधन विहित / Lien Marked N

कुल राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
₹ 16,42,58	31-08-2022	5.50	60 Months 0 Days	31-08-2027	164258

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के तहत वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार / Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. Rate of Interest is in percentage per annum

2. Automatic Renewal Clause

3. For Deposits issued for a period of 1 year and above, deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date, if not instructed otherwise.

4. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date, if not instructed otherwise.

5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

6. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Responder (if applicable) to the Bank for pre-approval of deposit above the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

7. Form 15H can be accepted only from exempted persons (age of 60 years or more).

8. Premature Withdrawal Clause

9. Premature withdrawal of deposit above the threshold limit will attract penalty of 1% (one per cent) on the date of deposit for the period for which deposit has been made.

10. Premature withdrawal of deposit above the threshold limit will attract penalty of 1% (one per cent) on the date of deposit for the period for which deposit has been made.

11. Premature withdrawal of deposit above the threshold limit will attract penalty of 1% (one per cent) on the date of deposit for the period for which deposit has been made.

12. Premature withdrawal of deposit above the threshold limit will attract penalty of 1% (one per cent) on the date of deposit for the period for which deposit has been made.

[Handwritten Signature]